

परिशिष्ट सारणी IV.13: सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति

मद	स्वयं सहायता समूह									
	संख्या (लाख में)					राशि (₹ करोड़ में)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण (वित्तीय वर्ष के दौरान)	28.9 (17.0)	34.0 (24.8)	43.0 (36.9)	54.8 (47.6)	55.6 (44.7)	58,070.6 (31,755.1)	99,729.2 (68,916.9)	1,45,200.2 (1,25,106.3)	2,09,285.9 (1,83,297.1)	2,08,282.7 (1,80,354.9)
बैंकों के पास बकाया ऋण (31 मार्च को)	57.8 (36.0)	67.4 (47.8)	69.6 (58.9)	77.4 (65.0)	84.9 (69.3)	1,03,289.0 (61,393.1)	1,51,051.0 (1,01,840.1)	1,88,078.8 (1,61,583.9)	2,59,663.7 (2,22,452.1)	3,04,258.7 (2,58,072.7)
बैंकों के पास बचत (31 मार्च को)	112.2 (70.1)	118.9 (77.7)	134.0 (89.4)	144.2 (91.7)	143.3 (106.2)	37,477.0 (21,307.8)	47,240.5 (31,077.1)	58,892.7 (40,971.9)	65,089.2 (49,738.7)	71,433.3 (58,158.1)
	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं									
	संख्या (लाख में)					राशि (₹ करोड़ में)				
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	0.3	0.2	0.8	0.3	0.3	12,120.3	23,173.4	36,757.0	31,497.1	21,136.3
बैंकों के पास बकाया ऋण	0.6	0.6	1.1	1.9	0.6	21,062.7	34,865.4	44,119.8	59,592.7	34,426.2
	संयुक्त देयता समूह									
	संख्या (लाख में)					राशि (₹ करोड़ में)				
बैंकों द्वारा संवितरित ऋण (वित्तीय वर्ष के दौरान)	41.3	54.1	70.0	73.3	49.8	58,311.8	1,12,772.8	1,33,372.8	1,88,313.4	79,061.9

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत शामिल एसएचजी का विवरण दर्शाते हैं।

2. बैंकों से ऋण लेने वाले एमएफआई की वास्तविक संख्या खातों की संख्या से कम हो सकती है, क्योंकि अधिकांश एमएफआई एक ही बैंक से कई बार और एकाधिक बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

स्रोत: नाबार्ड।